



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-306/2020 दिनांक 01.11.2020)

दिनांक- 01.11.2020 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

यातायात माह नवम्बर 2020 का शुभारंभ -

आज दिनांक 01.11.2020 को रविन्द्रनगर धुस से यातायात माह-नवम्बर 2020 का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा यातायात जागरुकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शासन के निर्देशानुसार नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कराने हेतु सावधानी पूर्वक रोड पर चलने, यातायात नियमों का पालन करने हेतु सुझाव दिया गया एवं रोड सेफ्टी के प्रति लोगो को जागरुक किया गया। इसी क्रम में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। लोगों को हेलमेट पहनने, सेफ्टी बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित करते हुए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक रहकर उनका पालन करने की अपेक्षा की गयी।

इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अयोध्या प्रसाद सिंह, प्रभारी निरीक्षक को0 पड़रौना व प्रभारी यातायात उ0नि0 परमहंस व अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-(कुल-03)

थाना जटहाँ बाजार -

थाना जटहाँ बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त महेश पुत्र दिनदयाल साकिन चिरगोड़ा थाना जटहाँबाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-146/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

थाना तुर्कपट्टी -

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1.सरजू पुत्र अकलू साकिन महुअवा बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 2.राजेश सिंह पुत्र अम्बिका सिंह साकिन विशुनपुरा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20-20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः अन्तर्गत मु0अ0सं0-390/2020,391/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-03)

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1.शैलेश कुमार पुत्र स्व0 मोति प्रसाद साकिन साखोपार थाना कसया जनपद कुशीनगर, 2.दीपू पुत्र रामआधार साकिन सोहनरिया थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-730/2020 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

थाना कुबेरस्थान-

थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त राकेश कुमार मद्धेशिया पुत्र चन्द्रिका मद्धेशिया साकिन सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-192/2020 धारा 307/504/506 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 32 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-196 वाहन।
2. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-32, व्यक्ति-110।
3. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-मु0-03,अभि0-03, बरामदगी-50 ली0 अवैध कच्ची शराब,
4. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी - 03
5. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-38)।

मीडिया सेल
कुशीनगर